

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

20-8-80

सं० 306]
No. 306]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1980/आषाढ़ 17, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1980/ASADHA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

का० आ० 515(अ).--भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की रपट पर यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नीचे अनुसूची में यथावर्णित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार), कलकत्ता नगर में सार्वजनिक व्यय पर कलकत्ता मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संकर्मों के निर्माण जैसे एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर लिया जाये।

अतः अब भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में यथावर्णित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है।

यह घोषणा सभी संबंधित व्यक्तियों को की जाती है।

भूमि, भवन आदि के प्लान, का जिसके लिए उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) अधिग्रहीत किया गया है, कलकत्ता मेट्रो रेलवे के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

भूमि, भवन आदि जिसमें उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार), कलकत्ता मेट्रो रेलवे और मेट्रो रेलवे से संबंधित अन्य संक्रमों के निर्माण के प्रयोजन से अधिग्रहीत किया गया है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर सूची अनुसूची संख्या 10/9

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि, भवन आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार) अधिग्रहीत किया गया है	भूमि आदि जिसमें उपयोग का अधिकार अधिग्रहीत किया गया हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार)	(अण्डर ग्राउन्ड अधिकार)
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
डाइग सं० एम०आर०सी०/इल्यू०/सेट/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संक्रमों का निर्माण।	3.75 वर्गमीटर (.000375 हेक्टेयर)	13/1 एवं 14/ए और मुखर्जी लेन के बीच के रास्ते के नीचे उत्तर : 13/1, और मुखर्जी लेन दक्षिण : 14/ए, और मुखर्जी लेन, पूर्व : 14/ए एवं 14/3, और मुखर्जी लेन के बीच का रास्ता। पश्चिम : 13 एवं 13/1, और मुखर्जी लेन के बीच का रास्ता।

[काइग सं० 80/एम० टी० पी०/सी०/एल० ए०/52]

के० बालचन्द्रन, सचिव

रेलवे बोर्ड एवं

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1980

S.O. 515(E).—Whereas the Central Government on the report of the Competent Authority under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building etc. mentioned in the Schedule below should be required for a public purpose namely, for construction of Metro Railway, Calcutta and other works connected therewith at the public expense in the city of Calcutta.

Now therefore, it is hereby declared that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, the Central Government do hereby acquire the right of user (underground right) in the land, building etc. referred to in the schedule below.

A plan of the land, building etc. in respect of which the right of user (underground right) is acquired, may be inspected in the office of the Competent Authority, Metro Railway, Calcutta.

Schedule showing the land, building etc. in which the right of user (underground right) is acquired for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/9

Reference to Plan		Purpose for which the right of user (underground right) in the land, building, etc. is acquired	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is acquired (Under Ground right)		(Underground right)
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. 276-79.		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	3.75 Sq. M. (.000375 Hectares).	Below passage between 13/1 & 14/A, Bhairab Mukherjee Lane.	North : 13/1, Bhairab Mukherjee Lane. South : 14/A, Bhairab Mukherjee Lane. East : Passage between 14/A & 14/3, Bhairab Mukherjee Lane. West : Passage between 13 and 13/A, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 80/MTP/C/LA/52]

K. BALACHANDRAN

Secretary, Railway Board

&

Ex-Officio Joint Secretary to the Government of India